

1-अवैध तमंचा सहित शातिर अपराधी गिरफ्तार, थाना सोनकपुर:-

अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के तहत आज दिनांक 26.05.2022 की रात्रि में उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह थाना सोनकपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित शातिर अभियुक्त सतवीर पुत्र रामवसन्त निवासी ग्राम भूडा वास थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद को अवैध 12 बोर तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना सोनकपुर पर 30/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-नशीली गोलियो सहित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स:-

अवगत करना है आज दिनांक कि 27.05.2022 को उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित मौहम्मद रफी पुत्र अब्दुल हफीज निवासी करूला थाना कटघर मुरादाबाद को 100 नशीली गोलियो (Alprazolam Tablets) सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0-401/2022 धारा 8/21 N.D.P.S Act पंजीकृत किया गया।

3-नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना भगतपुर

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2022 को वादी निवासी थाना भगतपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध में थाना भगतपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0— 125/2022 धारा - 363/366/376 भादवि0 व ¼ पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शर्मा थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित वांछित अभियुक्त अलाउद्दीन पुत्र रईस निवासी ग्राम करियानगला सानी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर अपहर्ता को बरामद कर लिया गया है।

4-गोवंशीय पशु को वध करने के लिए ले जाते हुए 02 गौतस्कर गिरफ्तार, थाना भगतपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित अहमदयार पुत्र अहमद अली व नवाव पुत्र शराफत निवासीगण ग्राम मंगावाला थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद को गोवंशीय पशु को वध के लिए ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0 – 128/2022 धारा - 3/5ए/8 गौवध अधिनियम को गिरफ्तार किया गया।

5-एक-एक अवैध तमंचा सहित 02 गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है कि अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन पाताल” के तहत दिनांक 26.05.2022 को उ0नि0 श्री चमन सिंह बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित गुलाम मोहम्मद पुत्र जाकिर निवासी मुंडी मिलक थाना मैनाटेर जिला मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा व 02 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा आज दिनांक 27.05.2022 श्री अनिल कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल सहित नदीम उर्फ चालू पुत्र शकील निवासी मोहल्ला अंसारीयान थाना बिलारी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0 क्रमश:- 205, 206/2022 धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट किया गया।